



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

90. Please wear warm clothes in the evening.

| | | |
|------------------|--|---|
| ASSAMESE | অনুগ্রহ কৰি সন্ধিয়া গৰম কাপোৰ পৰিধান কৰিব। | Anugrah kori sondhiya gorom kapor poridhan koribo. |
| BENGALI | সন্ধ্যাবেলা দয়া কৰে গৰম জামাকাপড় পরবেন। | Sondhyebela doya kore garom jamakapor porben. |
| BODO | অননানৈ বেলাসিয়াব গুদুং জি গান। | Onnanwi baylasiyaou gudung see gan. |
| DOGRI | मेहरबानी करियै संजा लै गर्म ढल्ले लाई लैओ | Meharabaanee kariyai snjaa lai garm dhallo laa_ii laio. |
| GUJARATI | કૃપા કરીને સાંજે ગરમ વસ્ત્રો પહેરો. | Krupa karine sanjhe garam vastro pahero. |
| HINDI | कृपया शाम के समय गर्म कपड़े पहन लें। | Kripaya shaam ke samay garm kapde pahan lein. |
| KANNADA | ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. | Dayavittu sanjeya hottu behcagina udupugalannu dharisi. |
| KASHMIRI | مہربانی کر تھ لائی زبو شامنس گرم پلو۔ | Maharbani karith laegzyew shamnas garam palaw. |
| KONKANI | उपकार करून सांजवेळा उब दिवपी कपडे घालचे. | Upkaar karun saanzvellaa oob divpi kapde ghaalche. |
| MAITHILI | सांझ में कृपा क गर्म कपड़ा पहिरल करू। | Saanjh me kripa ka garm kapda pahiral karu. |
| MALAYALAM | ദയവായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇളംചൂടുപകരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. | Dayavaayi vaikunnerangil ilamchoodu pakarunna vasthrangal dharikkuka. |
| MANIPURI | চানবীদুনা নুমিদাংরাইরমদা অরুম্বা ফিরোল শীজিন্নবীযু | Numidangwairamda arumba firol sijinnabiyu . |
| MARATHI | संध्याकाळी कृपया उबदार कपडे घाला | Sandhyaakaali krupayaa ubdaar kapde ghaala. |

| | | |
|-----------------|--|---|
| NEPALI | साँझको बेला केही न्यानो-तातो कपडा लगाउनु होला। | Saanjha ko bela kehi nyano-tato kapda lagaunu hola. |
| ODIA | ଦୟାକରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | Dayakari sandhyare garama posaka pindhantu. |
| PUNJABI | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। | Kirpa karke sham nu garam kapdey pao. |
| SANSKRIT | कृपया सायम् ऊर्णा-वस्त्राणि धारयन्तु। | Krpaya saeen oorna-vastraani dhaarayantu. |
| SANTALI | धिनंग दो ऊरगुम किचरित् होरोक् जरूर आ | Dhinang do urgum kichrit' horok' jarur aa. |
| SINDHI | مهرباني ڪري شام جي وقت گرم ڪپڙا پايو. | Maherbani kare shaam je waqt garam kapraa paayo. |
| TAMIL | மாலை நேரத்தில் தயவுசெய்து கதகதப்பான ஆடைகளை அணியுங்கள். | Maalai nerathil thayavu seidhu kadhakadhappaana aadaigalai aniyungal. |
| TELUGU | సాయంత్రం పూట వెచ్చని దుస్తులు వేసుకోండి. | Sāyantram pūṭa veccani dustulu vēsukōṇḍi. |
| URDU | برائے کرم شام کے وقت گرم کپڑے پہنیں | Barai karam sham ke waqt garam kapde pahnen. |